

मापित किया जाता है कि इस मापी पुस्त
मे मशीन के द्वारा मापित कुल 100 एक सौ
पन्ने है यह मापी पुस्त श्री. अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता ग्रामोण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल 27 जौली को निर्गत
किया जाता है।

WM 23/11
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामोण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गधुवनी
CMH
23/11/20

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2433

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on A/c Bill

1

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
name of work -	constitution				
of road part A, -	Beldashu				
Jagdish Road house to chorned					
Beldashu road under masonry					
(Se)					
Agency, -	Shirdani Engineers pro-				
	Shirdani Singh				
Agreement no) -	127 S.B.D/2020-21				
Date of commencement :-	20-9-2020				
Date of completion :-	23-09-2021				
(Record measurement dt)	18.8.21				
item no-① :-	setting out				
peles -				of E 12	
1.00 X 6.00 nos				= 6 nos	
				Total =	6 nos
item no-② :-	cleaning				
scrubbing of vegetation -	- of E 12				
3 X 30 X 3.50				=	315 m ²
6 X 30 X 3.50				=	630 "
8 X 30 X 3.50				=	840 "
2 X 30 X 3.50				=	210 "
4 X 30 X 3.50				=	420 "
5 X 30 X 3.50				=	525 "
				Total	2940 m ²
Qty =	2940 / 10000 = 0.29 Hetas				
	Continuation total = 0.29 H				

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no- (18/21) i- ponnuliy and fixing annulus					
Qty. side T m B p - 29					
Qty = 5 m ³					
@ Rs 10808.95 / cum					Rs 54045 =
item no- (19/22) i- Earth work in excavation foundn. - of E.I.					
Qty. side T m B p - 17					
Qty = 53.53 m ³					
@ Rs 279.03 / cum					Rs 16631 =
item no- (20/23) i- ponnuliy (m-15) p.c.c. in foundn. of gir					
Qty. side T m B p - 17					
Qty = 9.18 m ³					
@ Rs 6273.76 / cum					Rs 57593 =
item no- (21/24) i- p.v (R.C.C in substructure (m-20) - of E.I.					
Qty. side T m B p - 17					
Qty = 67.49 / cum					
@ Rs 6273.76 / cum					Rs 423416 =
item no- (22/25) i- p.v (R.C.C in substructure (m-20) - of E.I.					
Qty. side T m B p - 17					
Qty = 15 m ³					
@ Rs 3819.04 / cum					Rs 57286 =

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no (23/26) i - painting on					
perpet walls --- of air					
Qty. mds mmp - 29					
Qty = 41.28 m ²					
@ RS 101.40 / m ²					= RS 4186 = 00
					Total = 821 7095 =
Add 12% G.S.T = RS					98 6051 =
Add 1% less = RS					82 171 = 00
Add 1.54% S.F. = RS					126543 = 00
					Total = RS 941 1860 = 00
16.64% Below = RS					1566134 = 00
					Total = RS 7895726 = 00
deduct p-pid cell =					4971365 = 00
					Total = RS 28,74,361 = 00

AS
30/03/2024
JR